



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 26.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



यूपी-112 पीआरवी टीम ने तत्परता से बचायी गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति की जान...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के सफल पर्यवेक्षण में यू०पी० 112 पुलिस द्वारा लगातार जनपद वासियों को तत्काल सहायता हेतु पुलिस सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके क्रम में दिनांक 25.05.2021 को थाना कबरई अन्तर्गत पीआरवी 1256 टीम को कॉलर श्री रविन्द्र कुमार के द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि कानपुर हाइवे रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास बाइक व बोलेरों में एक्सीडेंट हो गया गया है, इस सूचना पर पीआरवी 1256 टीम (इवेंट संख्या 08298) अविलम्ब मौके पर पहुंचे तो जानकारी मिली कि एक ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में बोलैरो गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी तथा मौके से भाग गए, जिससे बाइक सवार व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो जाने पर बेहोशी की हालत में रोड पर पड़ा है, जिसके पैर व सर में गम्भीर चोटें आयी थी, जिस पर तत्पराता दिखाते हुये पीआरवी-1256 कर्मियों ने तत्काल घायल व्यक्ति को अपने पीआरवी वाहन के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जिससे उसकी जान बच सकी तथा इसकी सूचना परिजनों को दी. पीआरवी कर्मियों तत्परता से गम्भीर घायल व्यक्ति महेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल वर्मा नि० बांधुर खुर्द थाना बिवांर जनपद हमीरपुर को अल्प समय में अस्पताल पहुंचाया जिससे समय पर उपचार मिल सका व जान बच सकी, घायल व्यक्ति व उनके परिजनों/स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

पीआरवी- 1256 स्टाफ का विवरण...

1. कमाण्डर - हे०का० रामराज सिंह
2. सब कमान्डर - कां० रावेन्द्र कुमार
3. पायलट - कां० सुखराम सिंह।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 26.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेश तथा अपर पुलिस अधीक्षक निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में चलाये जा रहे शराब के अवैध कारोबार पर नियन्त्रण व उसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2021 को थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री सुनील कुमार तिवारी द्वारा गठित उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराही कर्मियों के साथ टीम ने अभियान में शामिल होकर घुटई रेलवे स्टेशन तिराहे के पास सड़क के किनारे से अभियुक्त क्रमशः 1. बाबूलाल पुत्र भरुवा अहिरवार उम्र करीब 45 वर्ष (2) दिलीप कुमार पुत्र संतराम उम्र करीब 25 वर्ष गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से क्रमशः 45-45(90) अदद देशी क्वाटर शराब नजायज बरामद जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स 65/21 व 66/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम...।

1. उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह।
2. कां0 अंकुश कुमार 3. कां0 सनी कटियार 4. कां0 पंकज पाल।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण...।

1. बाबूलाल पुत्र भरुवा अहिरवार उम्र करीब 45 वर्ष नि0ग्राम घुटई थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. दिलीप कुमार पुत्र संतराम उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 26.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाडी पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार जिसके कब्जे से चोरी गये लोहे के 08 अदद इंगल हुये बरामद...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2021 को **SHO** पनवाडी श्री विजय कुमार सिंह द्वारा गठित टीम ने अभियान में सम्मिलित होकर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 100/2021 धारा 379/411 **IPC** से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शीतल पुत्र स्व0 नत्थू नि0 ग्राम छतेसर थाना पनवाड़ी जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गये 08 अदद लोहे के इंगल जिनकी कीमती 11000/-रुपये है को बरामद करते हुये अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

बरामद माल – 08 अदद लोहे के इंगल



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...।

1. उ0नि0 रमेशचन्द्र थाना पनवाड़ी महोबा।
2. का0 राघवेन्द्र थाना पनवाड़ी महोबा।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त ...।

शीतल पुत्र स्व0 नत्थू नि0 ग्राम छतेसर थाना पनवाड़ी जिला महोबा



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 26.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना चरखारी पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेशचन्द्र के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के तहत आज दिनांक 26.05.2021 को **SHO** चरखारी श्री शशि कुमार पाण्डेय द्वारा गठित उ.नि. आशुतोष त्रिपाठी मय हमराह के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.स 105/21 धारा 506/323/325 **IPC** से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. राजकिशोर पारासर पुत्र नाथूराम पारासर उम्र 60 वर्ष 2. देवेन्द्र पारासर पुत्र राजकिशोर उम्र 31 वर्ष 3. दीपक पारासर पुत्र राजकिशोर उम्र 28 वर्ष 4. शिवम पारासर पुत्र राजकिशोर उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये मां0 न्यायालय महोबा पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ.नि. आशुतोष त्रिपाठी
2. का. राहुल यादव 3. का. अंकित यादव।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्तों का विवरण..।

1. राजकिशोर पारासर पुत्र नाथूराम पारासर उम्र 60 वर्ष
 2. देवेन्द्र पारासर पुत्र राजकिशोर उम्र 31 वर्ष
 3. दीपक पारासर पुत्र राजकिशोर उम्र 28 वर्ष
 4. शिवम पारासर पुत्र राजकिशोर उम्र 21 वर्ष
- समस्त निवासीगण मोहल्ला छैलबिहारी कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 26.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्त किये गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2021 को **SHO** पनवाड़ी श्री विजय कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 तनवीर अहमद के नेतृत्व में टीम ने अभियान में सम्मिलित होकर अवैध शराब के साथ अभियुक्त क्रमशः 1. मानबेन्द्र यादव पुत्र रामदयाल यादव उम्र 24 वर्ष जिसके कब्जे से 24 क्वार्टर व अभियुक्त मुकेश यादव पुत्र चन्द्रभान यादव जिसके कब्जे से 20 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब नाजायज बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया । जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु.अ.सं. 101/2021 व 102/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी ।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1- उ0नि0 तनवीर अहमद चौकी प्रभारी नगराघाट थाना पनवाड़ी महोबा
- 2- का. प्रभात कुमार थाना पनवाड़ी महोबा
- 3- का. आशीष कुमार यादव थाना पनवाड़ी महोबा

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण...।

1. मानबेन्द्र यादव पुत्र रामदयाल यादव उम्र 24 वर्ष
2. मुकेश यादव पुत्र चन्द्रभान यादव
निवासीगण.. सिसालपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 26.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्टिंग महिला पुलिस चौकी, थाना चरखारी का किया गया औचक निरीक्षण कोतवाली महोबा अन्तर्गत ग्राम बीजा नगर का भ्रमण कर लोगो को कोविड संक्रमण के प्रति किया गया जागरूक



आज दिनांक 26.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में वैश्विक महामारी **कोविड-19** संक्रमण के प्रति जागरूकता एवं लॉकडाउन का पालन कराये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, सीओ सिटी श्री रामप्रवेश राय मय पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली महोबा अन्तर्गत ग्राम बीजा नगर का भ्रमण कर ग्रामवासियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव की जानकारी दी गई एवं कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय चरखारी पुलिस बल के साथ कस्बा चरखारी में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराया गया। यातायात नियमों के उल्लंघन पर **27 ई-चालान व** कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **42 व्यक्तियों से 12000/-रु0 शुल्क वसूला गया।**

अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम द्वारा रिपोर्टिंग महिला पुलिस चौकी, थाना चरखारी का औचक निरीक्षण किया गया, चौकी कार्यालय के अभिलेखों को चेक किया गया एवं उपस्थित पुलिस बल एवं चौकी प्रभारी को महिला फरियादियों की समस्याओं का तत्परता से निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।

